

C.G. STATE ELIGIBILITY TEST- 2017

Subject : SOCIOLOGY

SYLLABUS

PAPER - II

A : SOCIOLOGICAL CONCEPTS

1. Nature of Sociology

Definition

Sociological Perspective

2. Basic Concepts

Community

Institution

Association

Culture

Norms and Values

3. Social Structure

Status and role, their interrelationship

Multiple roles, Role set, Status set, Status sequence

Role conflict

4. Social Group

Meaning

Types : Primary-Secondary, Formal-Informal, Ingroup-Outgroup, Reference group

5. Social Institutions

Marriage

Family

Education

Economy

Polity

Religion

6. Socialization

Socialization, Resocialization, Anticipatory socialization, Adult socialization

Agencies of socialization

Theories of socialization

7. Social Stratification

Social differentiation, Hierarchy and Inequality

Forms of stratification : Caste, Class, Gender, Ethnic

Theories of social stratification

Social mobility

8. Social Change

Concepts and Types : Evolution, Diffusion, Progress, Revolution, Transformation, Change in structure and Change of structure

Theories : Dialectical and Cyclical

B : SOCIOLOGICAL THEORY

9. Structural

Nadel

Radcliffe Brown

Levi-Strauss

10. Functional

Malinowski

Durkheim

Parsons

Merton

11. Interactionist

Social action : Max Weber, Pareto

Symbolic interactionism : G. H. Mead, Blumer

12. Conflict

Karl Marx

Dahrendorf

Coser

Collins

C : METHODOLOGY

13. Meaning and Nature of Social Research

Nature of social phenomena

The scientific method

The problems in the study of social phenomena : Objectivity and subjectivity, fact and value

14. Quantitative Methods

Survey

Research Design and its types

Hypothesis

Sampling

Techniques of data collection : Observation, Questionnaire, Schedule, Interview

15. Qualitative Methods

Participant observation

Case study

Content analysis

Oral history

Life history

16. Statistics in Social Research

Measures of Central Tendency : Mean, Median, Mode

Measures of dispersion

Correlational analysis

Test of significance

Reliability and Validity

PAPER – III (A)
(CORE GROUP)

Unit – I : Phenomenology and Ethnomethodology

Alfred Shultz, Peter Berger and Luckmann
Garfinkel and Goffman

Unit – II : Neo-functionalism and Neo-Marxism

J. Alexander
Habermass, Althusser

Unit – III : Structuration and Post-Modernism

Giddens
Derrida
Foucault

Unit – IV : Conceptualising Indian Society

Peoples of India : Groups and Communities
Unity in diversity
Cultural diversity : Regional, linguistic, religious and tribal

Unit – V : Theoretical Perspectives

Indological / Textual Perspective : G. S. Ghurye, Louis Dumont
Structural-Functional Perspective : M. N. Srinivas, S. C. Dube
Marxian Perspective : D. P. Mukherjee, A. R. Desai
Civilisational Perspective : N. K. Bose, Surajit Sinha
Subaltern Perspective : B. R. Ambedkar, David Hardiman

Unit – VI : Contemporary Issues : Socio-cultural

Poverty
Inequality of caste and gender
Regional, ethnic and religious disharmonics
Family disharmony : (a) Domestic violence (b) Dowry (c) Divorce
(d) Intergenerational conflict

Unit – VII : Contemporary Issues : Developmental

Population

Regional disparity

Slums

Displacement

Ecological degradation and environmental pollution

Health problems

Unit – VIII : Issues Pertaining to Deviance

Deviance and its forms

Crime and delinquency

White collar crime and corruption

Changing profile of crime and criminals

Drug addiction

Suicide

Unit – IX : Current Debates

Tradition and Modernity in India

Problems of Nation Building : Secularism, Pluralism and Nation building

Unit – X : The Challenges of Globalisation

Indianisation of Sociology

Privatisation of Education

Science and Technology Policy of India

PAPER – III (B)

(ELECTIVE / OPTIONAL)

Elective – I : Rural Sociology

Approaches to the study of Rural Society :

Rural-Urban differences

Rurbanism

Peasant studies

Agrarian Institutions :

- Land ownership and its types
- Agrarian relations and Mode of production debate
- Jajmani system and Jajmani relations
- Agrarian class structure

Panchayati Raj System :

- Panchayat before and after 73rd Amendment
- Rural Leadership and Factionalism
- Empowerment of people

Social Issues and Strategies for Rural Development :

- Bonded and Migrant labourers
- Pauperization and Depeasantisation
- Agrarian unrest and Peasant movements

Rural Development and Change :

- Trends of changes in rural society
- Processes of change : Migration — Rural to Urban and Rural to Rural
- Mobility : Social / Economic
- Factors of change

Elective – II : Industry and Society

Industrial Society in the Classical Sociological Tradition :

- Division of labour
- Bureaucracy
- Rationality
- Production relations
- Surplus value
- Alienation

Industry and Society :

- Factory as a social system
- Formal and informal organization
- Impact of social structure on industry
- Impact of industry on society

Industrial Relations :

- Changing profile of labour
- Changing labour-management relations
- Conciliation, adjudication, arbitration
- Collective bargaining
- Trade unions
- Workers' participation in management (Joint Management Councils)
- Quality circles

Industrialisation and Social Change in India :

- Impact of industrialization on family, education and stratification
- Class and class conflict in industrial society
- Obstacles to and limitations of industrialization

Industrial Planning :

- Industrial Policy
- Labour legislation
- Human relations in industry

Elective – III : Sociology of Development

Conceptual Perspectives on Development :

- Economic growth
- Human development
- Social development
- Sustainable development : Ecological and Social

Theories of Underdevelopment :

- Liberal : Max Weber, Gunnar Myrdal
- Dependency : Centre-periphery (Frank), Uneven development (Sami Amin), World-system (Wallerstein)

Paths of Development :

- Modernisation, Globalisation
- Socialist
- Mixed
- Gandhian

Social Structure and Development :

- Social structure as a facilitator / inhibitor
- Development and socio-economic disparities
- Gender and development

Culture and Development :

- Culture as an aid / impediment
- Development and displacement of tradition
- Development and upsurge of ethnic movements

Elective – IV : Population and Society

Theories of Population Growth :

- Malthusian
- Demographic transition

Population Growth and Distribution in India :

- Growth of Indian population since 1901
- Determinants of population

Concepts of Fertility, Mortality, Morbidity and Migration :

- Age and Sex composition and its consequences
- Determinants of fertility
- Determinants of mortality, infant, child and maternal mortality
- Morbidity rates
- Determinants and consequences of migration

Population and Development :

- Population as a constraint on and a resource for development
- Socio-cultural factors affecting population growth

Population Control :

- Population policy : Problems and perspectives
- Population education
- Measures taken for population control

Elective – V : Gender and Society

Gender as a Social Construct :

- Models of Gendered socialisation

- Cultural symbolism and general roles

Social Structure and Gender Inequality :

- Patriarchy and Matriarchy

- Division of labour — Production and reproduction

Theories of Gender Relations :

- Liberalist

- Radical

- Socialist

- Post-modernist

Gender and Development :

- Effect of development policies on gender relations

- Perspectives on gender and development — Welfarist, developmentalist

- Empowerment.

Women and Development in India :

- Indicators of women's status : Demographic, social, economic and cultural

- Special schemes and strategies for women's development

- Voluntary sector and women's development

- Globalisation and women's development

- Eco-feminism

प्रश्न पत्र — II
A : समाजशास्त्र की अवधारणाएँ

1. समाजशास्त्र की प्रकृति
परिभाषा
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य
2. मुख्य अवधारणाएँ
समुदाय
संस्था
समूह
संस्कृति
मानदण्ड एवं मूल्य
3. सामाजिक संरचना
प्रस्थिति एवं भूमिका, उनका अन्तर्सम्बन्ध
विविध भूमिकाएँ, भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज, प्रस्थिति-क्रम
भूमिका-संघर्ष ।
4. सामाजिक समूह
अर्थ
प्रकार : प्राथमिक-द्वितीयक, औपचारिक-अनौपचारिक, अन्तर्समूह-बाह्यसमूह, सन्दर्भ समूह ।
5. सामाजिक संस्थाएँ
विवाह
परिवार
शिक्षा

अर्थव्यवस्था

राजव्यवस्था

धर्म ।

6. समाजीकरण

समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण

समाजीकरण के अभिकरण

समाजीकरण के सिद्धान्त ।

7. सामाजिक स्तरीकरण

सामाजिक विभेदीकरण, उच्चोच्च क्रम एवं असमानता

स्तरीकरण के स्वरूप : जाति, वर्ग, लिंग, नृजाति

सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त

सामाजिक गतिशीलता ।

8. सामाजिक परिवर्तन

अवधारणाएँ एवं प्रकार : उद्विकास, विसरण, प्रगति, क्रान्ति, रूपान्तरण, सामाजिक संरचना में परिवर्तन एवं सामाजिक संरचना का परिवर्तन

सिद्धान्त : द्वन्द्वात्मक एवं चक्रीय ।

B : समाजशास्त्रीय सिद्धान्त

9. संरचनात्मक

नैडिल

रेडक्लिफ ब्राउन

लेवी-स्ट्रास ।

10. प्रकार्यात्मक

मैलिनोवास्की

दुर्खीम

पार्सन्स

मर्टन ।

11. अन्तर्क्रियावादी

सामाजिक क्रिया : मैक्स वैबर, पैरेटो

प्रतीकात्मक अन्तर्क्रियावाद : जी० एच० मीड, ब्लूमर ।

12. संघर्षात्मक

कार्ल मार्क्स
डैहरनडॉर्फ
कोज़र
कॉलिन्स ।

C : विधि

13. सामाजिक शोध का अर्थ एवं प्रकृति

सामाजिक घटक की प्रकृति
वैज्ञानिक विधि

सामाजिक घटक के अध्ययन में समस्याएँ : वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता, तथ्य एवं मूल्य ।

14. गणनात्मक विधि

सर्वेक्षण

शोध-प्रारूप एवं इसके प्रकार

उपकल्पना

दत्त संकलन की विधियाँ : अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार ।

15. गुणात्मक विधियाँ

सहभागी अवलोकन

वैयक्तिक अध्ययन

अन्तर्वस्तु विश्लेषण

मौखिक इतिहास

जीवन इतिहास ।

16. सामाजिक शोध में सांख्यिकी

केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप : अनुपात, माध्यम, बहुलक

विचलन के माप के तरीके

सहसम्बन्ध विश्लेषण

सार्थकता का मापन

विश्वसनीयता एवं वैधता ।

प्रश्न-पत्र — III (A)

[कोर विभाग]

इकाई — I : घटना-विज्ञान तथा लोकविधि-विज्ञान

अल्फ्रेड शुल्ज, पीटर बर्जर तथा लकमैन

गारफिन्केल एवं गॉफमैन

इकाई — II : नव-प्रकार्यवाद एवं नव-मार्क्सवाद

जे० अलक्जेन्डर

हेबरमास, अल्थुजर ।

इकाई — III : संरचनाकरण तथा उत्तर-आधुनिकतावाद

गिड्डेन्स

देरिदा

फुकाऊ ।

इकाई — IV : भारतीय समाज का अवधारणात्मक स्वरूप

भारत के लोग : समूह एवं समुदाय

विविधता में एकता

सांस्कृतिक विविधता : क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक एवं जनजातीय ।

इकाई — V : सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

भारतविधा / वाङ्मयी परिप्रेक्ष्य : जी० एस० घुरिये, लुईस डूमों

संरचना-प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य : एम० एन० श्रीनिवास, एस० सी० दुबे

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य : डी० पी० मुखर्जी, ए० आर० देसाई

सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य : एन० के० बोस, सुरजीत सिन्हा

दलितवादी परिप्रेक्ष्य : बी० आर० अम्बेडकर, डेविड हार्डिमैन ।

इकाई — VI : समकालीन मुद्दे : सामाजिक-सांस्कृतिक

निर्धनता

जाति एवं लिंग सम्बन्धी असमानता

क्षेत्रीय, नृवंशीय एवं धार्मिक विसमरसता

पारिवारिक विसमरसता : (क) घरेलू हिंसा (ख) दहेज (ग) तलाक (घ) अन्तर्पीढ़ीय संघर्ष ।

इकाई — VII : समकालीन मुद्दे : विकासीय

जनसंख्या

क्षेत्रीय विषमता (भेद-भाव)

गन्दी बस्तियाँ

विस्थापन

पारिस्थितिकीय पतन एवं पर्यावरण-प्रदूषण

स्वास्थ्य समस्याएँ ।

इकाई — VIII : विचलन से सम्बन्धित मुद्दे

विचलन एवं इसके प्रकार

अपराध एवं विचलित व्यवहार

श्वेत वसन अपराध तथा भ्रष्टाचार

अपराध एवं अपराधियों के बदलते परिदृश्य

मादक द्रव्य व्यसन

आत्महत्या ।

इकाई — IX : समसामयिक विवाद

भारत में परम्परा एवं आधुनिकता

राष्ट्र निर्माण की समस्याएँ : पंथनिरपेक्षवाद, बहुलतावाद एवं राष्ट्र निर्माण ।

इकाई — X : वैश्वीकरण की चुनौतियाँ

समाजशास्त्र का भारतीयकरण

शिक्षा का निजीकरण

भारत की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय नीति ।

प्रश्न-पत्र — III (B)

[ऐच्छिक / वैकल्पिक]

ऐच्छिक — I : ग्रामीण समाजशास्त्र

ग्रामीण समाज की अध्यय पद्धतियाँ :

ग्रामीण तथा नगरीय अन्तर

ग्रामीण-नगरीयवाद

कृषक सम्बन्धी अध्ययन

कृषि सम्बन्धी संस्थाएँ :

भूमि स्वामित्व एवं इसके प्रकार
कृषक अन्तःसम्बन्ध एवं उत्पादन के तरीकों पर चर्चा
जजमानी व्यवस्था तथा जजमानी अन्तःसम्बन्ध
कृषि में वर्ग व्यवस्था

पंचायती राज व्यवस्था :

पंचायत 73वें संशोधन के पूर्व एवं पश्चात्
ग्रामीण नेतृत्व एवं गुटबन्दी
लोक का सशक्तिकरण

सामाजिक मुद्दे एवं ग्रामीण विकास की रूपनीतियाँ :

बँधुवा एवं प्रवासी मजदूर
दरिद्रीकरण एवं गैर-किसानीकरण
कृषक असन्तोष एवं कृषक आन्दोलन

ग्रामीण विकास और परिवर्तन :

ग्रामीण समाज में परिवर्तन की दिशाएँ
परिवर्तन की प्रक्रियाएँ : प्रव्रजन — ग्राम से नगर की ओर एवं ग्राम से ग्राम की ओर गतिशीलता :
सामाजिक / आर्थिक
परिवर्तन के कारक ।

ऐच्छिक — II : उद्योग एवं समाज

समाजशास्त्रीय परम्परा में औद्योगिक समाज :

श्रम-विभाजन
नौकरशाही
तार्किकता
उत्पादन सम्बन्ध
अतिरिक्त मूल्य
अनात्मीकरण / अलगाव

उद्योग एवं समाज :

समाज व्यवस्था के रूप में कारखाना
औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन
उद्योग पर सामाजिक संरचना का प्रभाव
समाज पर उद्योग का प्रभाव

औद्योगिक सम्बन्ध :

श्रम के बदलते परिदृश्य
बदलते श्रम-प्रबन्ध सम्बन्ध
समझौता, पंचनिर्णय, मध्यस्थता
सामूहिक सौदाकारी
श्रम-संघ
प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी (संयुक्त प्रबन्ध परिषद्)
गुणवत्ता केन्द्र

भारत में औद्योगीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन :

परिवार, शिक्षा एवं स्तरीकरण पर औद्योगीकरण का प्रभाव
औद्योगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष
औद्योगीकरण की बाधाएँ तथा सीमाएँ

औद्योगिक योजना :

औद्योगिक नीति
श्रम अधिनियम
उद्योग में मानवीय सम्बन्ध ।

ऐच्छिक — III : विकास का समाजशास्त्र

विकास की अवधारणाएँ :

आर्थिक वृद्धि
मानवीय विकास
सामाजिक विकास
संपोषक विकास : पर्यावरण सम्बन्धी एवं सामाजिक

अधो-विकास के सिद्धान्त :

उदारवादी : मैक्स वैबर, गुनार मिर्डल
निर्भरतावादी : केन्द्र-छोर (फ्रैंक), असमान विकास (समीर अमीन), विश्व-व्यवस्था
(वालरस्टीन)

विकास के मार्ग :

आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण
समाजवादी
मिश्रित
गाँधीवादी

सामाजिक संरचना एवं विकास :

सामाजिक संरचना एक सुविधा / बाधा
विकास एवं सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ
लिंग एवं विकास

संस्कृति एवं विकास :

संस्कृति एक सुविधा / बाधा
विकास एवं परम्परा उच्छेदन
विकास एवं नृजातीय आन्दोलनों का उद्भव ।

ऐच्छिक — IV : जनसंख्या एवं समाज

जनसंख्या वृद्धि के सिद्धान्त

माल्थसवादी

जनांकिकीय परिवर्तन

भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण :

1901 से भारत में जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या के निर्धारक ।

अवधारणाएँ — उत्पादकता, मृत्युदर (मर्त्यता), रुग्णता तथा प्रजनन :

आयु तथा लिंग संरचना तथा इसके परिणाम

उत्पादकता के निर्धारक

मृत्युदर (मर्त्यता) के निर्धारक, शिशु, बाल एवं मातृत्व मृत्युदर

रुग्णता दर

प्रजनन के निर्धारक एवं परिणाम

जनसंख्या एवं विकास :

विकास के अवरोध व संसाधन के रूप में जनसंख्या

जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

जनसंख्या नियंत्रण :

जनसंख्या नीति : समस्याएँ एवं परिप्रेक्ष्य

जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ।

ऐच्छिक — V : लिंग और समाज

लिंग की सामाजिक अवधारणा :

लिंग-आधारित सामाजीकरण के प्रारूप

सांस्कृतिक प्रतीकवाद एवं सामान्य भूमिका

सामाजिक संरचना एवं लिंग असमानता :

पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक

श्रम विभाजन — उत्पादन एवं पुनरुत्पादन

लिंग-सम्बन्ध के सिद्धान्त :

उदारवादी

आमूल परिवर्तनवादी

समाजवादी

उत्तर-आधुनिकतावादी

लिंग एवं विकास :

लिंग सम्बन्धों पर विकास नीतियों का प्रभाव

लिंग एवं विकास के परिप्रेक्ष्य — कल्याणकारी, विकासात्मक

सबलीकरण

भारत में नारी एवं विकास :

नारी-प्रस्थिति के सूचक : जनांकिकीय, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक

नारी-विकास की विशिष्ट योजनाएँ एवं रणनीतियाँ

स्वयंसेवी संगठन एवं नारी-विकास

वैश्वीकरण एवं नारी-विकास

पारिस्थितिकी नारीवाद ।